



ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज ने चर्चविल क्षेत्र के बाढ़ संबंधी कार्यों को बहाली प्रयासों में परिवर्तित किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 फरवरी, 2022) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services) के इंसीडेंट कमांडर, फायर चीफ बिल बोएस (Bill Boyes) ने निश्चित किया कि चर्चविल (Churchville) क्षेत्र के बाढ़ प्रतिक्रिया और ऑपरेशंस हिस्से को जारी रिकवरी प्रयासों में बदल दिया गया है।

आज, चर्चविल क्षेत्र के सभी निवासी, अपने घरों में वापस लौटने योग्य हो गए हैं।

सिटी की पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग टीम (Public Works & Engineering Team) और ब्रैम्पटन का एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Emergency Management Office), बहाली ऑपरेशंस को जारी रखेगा, जिनमें शामिल हैं, बर्फ हटाना, सफाई संबंधी प्रयास, जरूरी यूटिलिटी सेवाओं में सहयोग करके, लोकल निवासियों को सहायता प्रदान करना।

चर्चविल ब्रिज (Churchville Bridge), वाहन संबंधी ट्रैफिक के लिए बंद है और क्रेडिटव्यू रोड (Creditview Road), केवल लोकल ट्रैफिक के लिए खुली है। चर्चविल पार्क साउथ (Churchville Park South) इस समय बंद है और सिटी के पार्क का स्टाफ, इस क्षेत्र के लिए बहाली योजना पर, क्रेडिट वेली कन्जर्वेशन (Credit Valley Conservation) के साथ मिलकर काम करता रहेगा। टूटे रोडवेज और ढलानों के लिए कोई भी जरूरी मरम्मत का काम, गर्मी के महीनों में होगा।

आने वाले दिनों में और बर्फ पड़ने का पूर्व अनुमान नहीं है, हालांकि मौसम के पैटर्न बदल सकते हैं। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे बदलते पैटर्न और अपनी प्रॉपर्टी पर किसी भी संबंधित प्रभावों पर नज़र रखें।

प्रोविंसियल डिजास्टर असिस्टेंस टीम (Provincial Disaster Assistance Team), डिजास्टर रिकवरी असिस्टेंस फॉर ओनटैरियन्स (डी.आर.ए.ओ.) (Disaster Recovery Assistance for Ontarians) (DRAO) प्रोग्राम के द्वारा, संभावी आर्थिक सहायता के लिए क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए कल को वहां मौजूद होगी।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इस एमरजेंसी के दौरान, हमारे साझेदार संगठनों, रीजन ऑफ पील (Region of Peel), पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police), क्रेडिट वेली कन्जर्वेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी (Electrical Safety Authority), एनब्रिज (Enbridge), एलेक्ट्रा (Alectra), हमारे कम्युनिटी साझेदारों, ग्लोबल मेडिक (Global Medic) और खालसा एड (Khalsa Aid) और सहायक कॉन्ट्रैक्टर्स के समर्पित सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करती है।

-30-

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca